

HFCL Limited

8, Commercial Complex, Masjid Moth, Greater Kailash - II,

New Delhi - 110048, India

Tel : (+91 11) 3520 9400, 3520 9500 Fax : (+91 11) 3520 9525

Web : www.hfcl.com

Email secretarial@hfcl.com

HFCL/SEC/25-26 May 24, 2025

BSE Ltd.

1st Floor, New Trading Wing, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort

Mumbai - 400001

corp.relations@bseindia.com

Security Code No.: 500183

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor, C – 1, Block G Bandra – Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai – 400051 cmlist@nse.co.in

Security Code No.: HFCL

RE: Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

Subject: Publication of Audited Financial Results for the 4th Quarter and Financial Year ended

March 31, 2025, in Newspapers.

Dear Sir(s)/ Madam,

This is further to our earlier announcement dated May 22, 2025.

We hereby submit the copies of the newspaper publication of the **Audited Financial Results** of the Company for the **4**th **Quarter and Financial Year ended March 31, 2025,** on **Standalone and Consolidated basis**, published on **May 24, 2025**, in the following newspapers, as per the requirements of Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations.

1. Financial Express (All Editions) – English (copies for Delhi & Chandigarh Publications are

attached)

Divya Himachal (Shimla) – Hindi (copy attached)
 Jansatta (Chandigarh) – Hindi (copy attached)

It may be noted that the aforesaid **Audited Financial Results**, had been considered and approved by the Board of Directors of the Company, at its meeting held on May 22, 2025 and were submitted to the Stock Exchanges (NSE & BSE) on the same day.

You are requested to take the above information on records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For HFCL Limited

(Manoj Baid)

President & Company Secretary

Encl.: As above

FINANCIAL EXPRESS

Pakistan Army replied on behalf of terrorists: Shah

EXPRESS NEWS SERVICE New Delhi, May 23

STATING THAT OPERATION Sindoor had "exposed" Pakistan's complicity in terrorism directed at India, Union Home Minister Amit Shah said Friday "it was the Pakistan Army that replied after we hit their terror bases".

He said top Pakistan Army officers were seen offering namaz and shouldering the coffins of the terrorists killed in the May 7 strikes by India on terror hubs in Pakistan-occupied Kashmir and Pakistan.

Delivering the Rustamji Memorial Lecture at the Border Security Force (BSF) investiture ceremony, Shah said when Pakistan attempted to target Indian civilians and military installations, the Indian Armed Forces responded decisively by attacking their air bases, showcasing "our lethal capabilities and proving their air defence



system ineffective".

Describing Operation Sindoor as "a remarkable demonstration of Prime Minister Narendra Modi's firm political will, precise intelligence inputs from agencies, and the lethal capabilities of our forces", he said, "For decades, our country faced Pakistan-sponsored terrorism, and over the years, Pakistan carried out multiple ter-

rorist attacks, but these were never adequately responded to."

"After Modi became Prime Minister in 2014, the first major terrorist attack on our soldiers occurred in Uri, and for the first time, we conducted a surgical strike, penetrating into terrorist hideouts and giving a befitting response. We believed the response would put an end to the terror activities, but it did

not, and another terrorist attack took place in Pulwama on our soldiers. This time, the Indian forces responded decisively with an airstrike, once again destroying terrorist bases," he said. The situation, he said, deteriorated further in Pahalgam where Pakistan-sponsored terrorists killed innocent tourists before their wives and families after inquiring about their religion. "At that time, Prime Minis-

ter Modi had declared that this terrorist attack would receive a fitting response, and Operation Sindoor was that appropriate response." "While responses to terror-

ist attacks have been given in

many parts of the world, the response India has given is unique. After the attack in Pahalgam, we launched Operation Sindoor and, within minutes, destroyed nine terrorist bases, two of which were headquarters of terrorist organisations," he said.

Delegations to focus on Pak links to terror strikes

INDIA'S MULTI-PARTY DELE-**GATIONS** to different countries will emphasise Pakistan's links to terrorism, including the 9/11 attack in the US, and assert that the recent conflict was triggered by the Pahalgam terror strike and not Operation Sindoor as alleged by Islamabad. After the briefing by foreign

abroad

secretary Vikram Misri to four of the seven parliamentary delegations on Friday, delegates said they will work to bust the Pakistani narrative of projecting India as the aggressor by underscoring the links of Pahalgam terrorists to the country. Two of the four terrorists involved in the killing of 26 civilians, mostly tourists, in the famous tourist town were Pakistanis, some of the MPs said after the briefing.

With Pakistan protesting India's decision to put the Indus Waters Treaty in abeyance, delegations will be conveying that maintaining friendship and goodwill was a condition to the agreement, which Pakistan has constantly breached.

Jaishankar to Merz: Keen on elevating Germany ties

EXPRESS NEWS SERVICE New Delhi, May 23

EXTERNAL AFFAIRS MINIS-TER S Jaishankar on Friday told German Chancellor Friedrich Merz that India is looking forward to working with his government to elevate and expand the bilateral strategic partnership.

Jaishankar is in Berlin in the concluding leg of his three-nation tour to the Netherlands, Denmark and Germany. "Honoured to meet Chan-

cellor Friedrich Merz today in Berlin. Conveyed the best wishes of PM @narendramodi. Look forward to working with his government to elevate and expand our Strategic Partnership. Appreciate Germany's solidarity as India counters the challenge of terrorism," Jaishankar posted on X. He also met Minister of Economy and Energy Katherina Reiche. "Discussed ways to enhance our talent linkages, industry partnership and joint collaboration to build more resilient supply chains," Jaishankar said.

The EAM said he had a "good conversation" with



External affairs minister S Jaishankar with German Chancellor Friedrich Merz during a meeting, in Berlin

Gunter Sautter, Foreign and Security Policy Adviser to

"Exchanged perspectives on major global issues, including combatting terrorism. Our deepening partnership is an important factor of stability in an uncertain world. We will also work together to strengthen resilience and trust," Jaishankar said. On

Thursday, Jaishankar interacted with members of the German Bundestag (Parliament) and appreciated their strong support for the continued growth of India-Germany relations.

"Also discussed with them India's firm commitment to combatting terrorism in all forms and manifestations, Jaishankar said.

India, Pak extend airspace closure

FROM THE FRONT PAGE

SUKALP SHARMA New Delhi, May 23

FRIDAY PAKISTAN ON extended the closure of its airspace for Indian aircraft and airlines by a month, until the morning of June 24, according to a fresh notice to airmen (NOTAM) issued by the country's aviation authorities. Soon after, India, too, issued a NOTAM extending its ban on Pakistani flights in its airspace.

Amid escalating tensions with India following the April 22 Pahalgam terror attack, Pakistan on April 24 shut its

airspace to Indian aircraft and airlines for at least a month. On April 30, India, too, closed its airspace to Pakistani aircraft and airlines. Both NOTAMs were set to expire on Saturday at 5:29 am IST.

On Friday, the aviation authorities of both countries issued NOTAMs similar to the previous notices, shutting their airspaces to one another till 5:29 am IST on June 24.

The closure of the Pakistani airspace has affected around 800 flights a week, with carriers facing higher operational costs owing to longer durations,

increased fuel burn and increased complexities in crew and flight scheduling. Indian flights from North India to West Asia, the Caucasus, Europe, the UK, and North America's eastern region are now longer by anywhere between 15 minutes and a few hours.

All major Indian airlines operate international flights to destinations to the west of the country, and many of these flights were routinely overflying Pakistan. Air India operates flights to West Asia, Europe, the UK, and North America. IndiGo operated flights to West Asia,

Turkey, the Caucasus, and Central Asia, but had to suspend flights to the Central Asian cities of Almaty and Tashkent as they are now outside the operational range of its existing fleet of narrow-body aircraft. Air India Express, Akasa Air, and SpiceJet's west-bound international flights are to destinations in West Asia.

According to airline schedule data from Cirium, PIA operates just six flights a week-to and from Kuala Lumpur in Malaysia, from Lahore and Islamabad—that were routinely flying over India.

Regd. Office: 8, Electronics Complex, Chambaghat, Solan-173213 (Himachal Pradesh) Tel.: (+911792) 230644; Fax No.: (+911792) 231902; E-mail: secretarial@hfcl.com Website: www.hfcl.com; Corporate Identity Number (CIN): L64200HP1987PLC007466

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

The Audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the fourth guarter and financial year ended 31st March, 2025 ('Financial Results') have been reviewed and recommended by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on May 22, 2025.

The Financial Results along with the Limited Review Reports, have been posted on the Company's website at https://www.hfcl.com/ and can be accessed by scanning the QR code.

By order of the Board

Sd/-

(Mahendra Nahata) Managing Director

DIN: 00052898

Place: New Delhi Date: May 22, 2025



CIN: L70200DL2016PLC438718

MAX ESTATES LIMITED

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Trump threatens new | Companies opt tariffs for iPhone, EU



as he tours Apples Mac Pro manufacturing plant with in Austin,

alised democracies tried to

downplay disputes over the

tariffs earlier in the week at a

forum in the Canadian Rocky

day declined to comment on

US President Donald Trump's

 $recommendation \,to\,put\,a\,5\bar{0\%}$

tariff on goods from the Euro-

pean Union from June 1, say-

ing it would wait for a phone

call between EU trade chief

Maros Sefcovic and his US counterpart Jamieson Greer to

Shares in Germany's car-

makers and luxury companies,

some of the most exposed to

tariffs, fell on the news.

Porsche, Mercedes and BMW

were down more than 4% at

1220 GMT. Sunglasses com-

pany EssilorLuxottica was

—REUTERS

5.5% lower.

take place at 1500 GMT.

The EU Commission on Fri-

Mountains.

THE SHOCK RESPONSE forced the White House to pause most tariffs through early July, leaving only in place a 10% tax on imports from other nations, but Trump held out the possibility of reviving certain levies. Friday's statements end that calm.

"I have long ago informed Tim Cook of Apple that I expect their iPhones that will be sold in the United States of America will be manufactured and built in the United States, not India, or anyplace else,"Trump said in a post on Truth Social.


"If that is not the case, a Tariff of at least 25% must be paid by Apple to the US."

The White House has been in negotiations with numerous countries over trade issues, but progress has been unsteady. Finance leaders from the Group of Seven industrifor smaller IPOs IN FY25, 78 mainboard issues raised an all-time high amount of ₹1.62 lakh crore.

According to Yatin Singh, CEO of Investment Banking at Emkay Global Financial Services, the latest filings are in line with the market environment but the companies which filed for IPOs in the bull market will reduce the issue size to offer more reasonable valuations to the investors. "While the market has stabilised, we are nowhere close to the euphoria that we saw last year," he said, noting that FIIs have to return in the small and midcap segment for the institutional demand to improve.

At the same time, he added earnings recovery is not fully captured in the current slowdown and as things improve at the macro level, and a good

monsoon will aid growth. Experts also highlight the tepid listing of Aether Energy also impacted the sentiment. The shares of the electric twowheeler maker fell more than 5% on listing day.



Pranav Haldea, MD of Prime Database said companies are testing the waters again and valuations & sizes are usually lowered once IPO activity resumes after a break.

Mirae Asset Capital markets director Manish Jain said that the overall sentiment is not in favour of the primary market activity due to the volatility and a sustained bullish market is needed for the action to resume. Data from Prime Database show that 66 companies have valid Sebi approval as of May 16 while 70 other applications are awating the regulator's nod.

Okhla Industrial Estate, South Delhi, New Delhi, India, 110020 Website: www.maxestates.in STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL

Corporate Office: Max Towers, L-20, C-001/A/1, Sector-16B, Noida-201301, Uttar Pradesh, India

Registered Office: Max House 1, Dr. Jha Marg, Okhla Phase 3, Opposite Okhla Railway Station

RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2025

The Board of Directors of the Company, at the meeting held on May 22, 2025, approved the audited financial results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2025.

The results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com, and on the company's website (URL: https://maxestates.in/wp-content/uploads/2025/05/20250522 OutcomeofBoardMeeting.pdf). The same can be accessed by scanning the Quick Response Code provided below.

(Lisiting Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015



Place: New Delhi Date: May 22, 2025

By Order of the Board For Max Estates Limited Sd/-Sahil Vachani Vice-Chairman & Managing Director

Note - Note - The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI

Pradeep Metals Limited

Registered. Office: R-205, T.T.C. Ind. Area, MIDC, Rabale, Navi Mumbai 400701 Email id: investors@pradeepmetals.com, Website: www.pradeepmetals.com, Contact no: +91-022-2769 1026, Fax: +91-022-2769-1123

Extract of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2025

(Rs. in Lakhs)

). PARTICULARS	Standalone				Consolidated					
2207		Quarter ended		Year ended		Quarter ended			Year ended		
Sr No.		31-Mar-2025	31-Dec-2024	31-Mar-2024	31-Mar-2025	31-Mar-2024	31-Mar-2025	31-Dec-2024	31-Mar-2024	31-Mar-2025	31-Mar-2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	8,405.17	7,327.50	7,389.38	29,439.08	25,121.36	8,703.19	7,915.01	7,948.61	31,186.13	27,666.86
2	Net Profit for the period / year before tax	974.70	566.72	786.93	3,066.82	2,441.58	992.57	756.67	991.94	3,486.37	2,825.52
3	Net Profit for the period / year after tax	726.39	467.55	569.04	2,314.57	1,813.01	709.33	661.79	783.39	2,717.37	2,228.42
4	Total Comprehensive Income for the period / year [Comprising Profit / (Loss) for the period / year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	700.50	492.06	556.98	2,272.08	1,760.24	675.00	702.93	772.05	2,676.19	2,119.65
5	Paid-up equity share capital Other Equity (Reserve excluding Revaluation Reserve)	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00
7	as shown in the Audited Balance Sheet Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) (not annualized)				12,415.68	10,488.97				11,994.31	9,663.51
	(a) Basic	4.21	2.71	3.29	13.40	10.50	4.11	3.83	4.54	15.73	12.90
	(b) Diluted	4.21	2.71	3,29	13.40	10.50	4.11	3.83	4.54	15.73	12.90

Notes:

Place: Mumbai

Date : 22nd May 2025

1. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Standalone & Consolidated Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com/corporates) and the Company website (http://www.pradeepmetals.com/reports.html). The same can be accessed by Scanning the QR Code given.

2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its Meeting held on 22nd May 2025, the Statutory Auditors of the Company have carried out the audit of the Standalone & Consolidated financial results for the year ended 31st March 2025.

epaper.financialexpress.com

For Pradeep Metals Limited Pradeep Goyal Chairman and Managing Director DIN:00008370

New Delhi



Key issues for next GST meet



THE GOM WOULD be suggesting how to retain the revenue from cess in some form and how it is to be shared between

the Centre and the states. As per the calculations, the interest and principal of the ₹2.69 lakh crore loan would be repaid by January 2026. The

collection from the compensa-Centre and states.

tion cess in February and March, 2026 is estimated to be ₹40,000 crore. The GST law provides that any additional amount collected in the compensation cess pool would be divided equally between the **FINANCIAL EXPRESS**

Pakistan Army replied on behalf of terrorists: Shah

EXPRESS NEWS SERVICE New Delhi, May 23

STATING THAT OPERATION Sindoor had "exposed" Pakistan's complicity in terrorism directed at India, Union Home Minister Amit Shah said Friday "it was the Pakistan Army that replied after we hit their terror

He said top Pakistan Army officers were seen offering namaz and shouldering the coffins of the terrorists killed in the May 7 strikes by India on terror hubs in Pakistan-occupied Kashmir and Pakistan.

Delivering the Rustamji Memorial Lecture at the Border Security Force (BSF) investiture ceremony, Shah said when Pakistan attempted to target Indian civilians and military installations, the Indian Armed Forces responded decisively by attacking their air bases, showcasing "our lethal capabilities and proving their air defence



system ineffective".

Describing Operation Sindoor as "a remarkable demonstration of Prime Minister Narendra Modi's firm political will, precise intelligence inputs from agencies, and the lethal capabilities of our forces", he said, "For decades, our country faced Pakistan-sponsored terrorism, and over the years, Pakistan carried out multiple ter-

rorist attacks, but these were neveradequately responded to."

"After Modi became Prime Minister in 2014, the first major terrorist attack on our soldiers occurred in Uri, and for the first time, we conducted a surgical strike, penetrating into terrorist hideouts and giving a befitting response. We believed the response would put an end to the terror activities, but it did

not, and another terrorist attack took place in Pulwama on our soldiers. This time, the Indian forces responded decisively with an airstrike, once again destroying terrorist bases," he said. The situation, he said, deteriorated further in Pahalgam where Pakistan-sponsored terrorists killed innocent tourists before their wives and families after inquiring about their religion.

"At that time, Prime Minister Modi had declared that this terrorist attack would receive a fitting response, and Operation Sindoor was that appropriate response." "While responses to terror-

ist attacks have been given in

many parts of the world, the

response India has given is unique. After the attack in Pahalgam, we launched Operation Sindoor and, within minutes, destroyed nine terrorist bases, two of which were headquarters of terrorist organisations,"he said.

Delegations to focus on Pak links to terror strikes abroad

INDIA'S MULTI-PARTY DELE-**GATIONS** to different countries will emphasise Pakistan's links to terrorism, including the 9/11 attack in the US, and assert that the recent conflict was triggered by the Pahalgam terror strike and not Operation Sindoor as alleged by Islamabad.

After the briefing by foreign

secretary Vikram Misri to four of the seven parliamentary delegations on Friday, delegates said they will work to bust the Pakistani narrative of projecting India as the aggressor by underscoring the links of Pahalgam terrorists to the country. Two of the four terrorists involved in the killing of 26 civilians, mostly tourists, in the famous tourist town were Pakistanis, some of the MPs said after the briefing.

With Pakistan protesting India's decision to put the Indus Waters Treaty in abeyance, delegations will be conveying that maintaining friendship and goodwill was a condition to the agreement, which Pakistan has constantly breached.

Jaishankar to Merz: Keen on elevating Germany ties

EXPRESS NEWS SERVICE New Delhi, May 23

EXTERNAL AFFAIRS MINIS-TER S Jaishankar on Friday told German Chancellor Friedrich Merz that India is looking forward to working with his government to elevate and expand the bilateral strategic partnership.

Jaishankar is in Berlin in the concluding leg of his three-nation tour to the Netherlands, Denmark and Germany. "Honoured to meet Chan-

cellor Friedrich Merz today in Berlin. Conveyed the best wishes of PM @narendramodi. Look forward to working with his government to elevate and expand our Strategic Partnership. Appreciate Germany's solidarity as India counters the challenge of terrorism," Jaishankar posted on X. He also met Minister of Economy and Energy Katherina Reiche. "Discussed ways to enhance our talent linkages, industry partnership and joint collaboration to build more resilient supply chains," Jaishankar said.

The EAM said he had a "good conversation" with



External affairs minister S Jaishankar with German Chancellor Friedrich Merz during a meeting, in Berlin

Gunter Sautter, Foreign and Security Policy Adviser to

"Exchanged perspectives on major global issues, including combatting terrorism. Our deepening partnership is an important factor of stability in an uncertain world. We will also work together to strengthen resilience and trust," Jaishankar said. On

Thursday, Jaishankar interacted with members of the German Bundestag (Parliament) and appreciated their strong support for the continued growth of India-Germany relations.

"Also discussed with them India's firm commitment to combatting terrorism in all forms and manifestations, Jaishankar said.

India, Pak extend airspace closure

SUKALP SHARMA New Delhi, May 23

PAKISTAN ON **FRIDAY** extended the closure of its airspace for Indian aircraft and airlines by a month, until the morning of June 24, according to a fresh notice to airmen (NOTAM) issued by the country's aviation authorities. Soon after, India, too, issued a NOTAM extending its ban on Pakistani flights in its airspace.

Amid escalating tensions with India following the April 22 Pahalgam terror attack, Pakistan on April 24 shut its

airspace to Indian aircraft and airlines for at least a month. On April 30, India, too, closed its airspace to Pakistani aircraft and airlines. Both NOTAMs were set to expire on Saturday at 5:29 am IST.

On Friday, the aviation authorities of both countries issued NOTAMs similar to the previous notices, shutting their airspaces to one another till 5:29 am IST on June 24.

The closure of the Pakistani airspace has affected around 800 flights a week, with carriers facing higher operational costs owing to longer durations,

increased fuel burn and increased complexities in crew and flight scheduling. Indian flights from North India to West Asia, the Caucasus, Europe, the UK, and North America's eastern region are now longer by anywhere between 15 minutes and a few hours.

All major Indian airlines operate international flights to destinations to the west of the country, and many of these flights were routinely overflying Pakistan. Air India operates flights to West Asia, Europe, the UK, and North America. IndiGo operated flights to West Asia,

Turkey, the Caucasus, and Central Asia, but had to suspend flights to the Central Asian cities of Almaty and Tashkent as they are now outside the operational range of its existing fleet of narrow-body aircraft. Air India Express, Akasa Air, and SpiceJet's west-bound international flights are to destinations in West Asia.

According to airline schedule data from Cirium, PIA operates just six flights a week—to and from Kuala Lumpur in Malaysia, from Lahore and Islamabad—that were routinely flying over India.

FROM THE FRONT PAGE

Trump threatens new | Companies opt tariffs for iPhone, EU



Apple CEO Tim Cook (Left) escorts US President Donald Trump as he tours Apples Mac Pro manufacturing plant with in Austin,

alised democracies tried to

downplay disputes over the

tariffs earlier in the week at a

forum in the Canadian Rocky

US President Donald Trump's

recommendation to put a 50%

tariff on goods from the Euro-

pean Union from June 1, say-

ing it would wait for a phone

call between EU trade chief

Maros Sefcovic and his US

counterpart Jamieson Greer to

some of the most exposed to

tariffs, fell on the news.

Porsche, Mercedes and BMW

were down more than 4% at

1220 GMT. Sunglasses com-

pany EssilorLuxottica was

5.5% lower.

Key issues for next GST meet

-REUTERS

Shares in Germany's car-

take place at 1500 GMT.

The EU Commission on Friday declined to comment on

Mountains.

THE SHOCK RESPONSE forced the White House to pause most tariffs through early July, leaving only in place a 10% tax on imports from other nations, but Trump held out the possibility of reviving certain levies. Friday's statements end that calm.

"I have long ago informed Tim Cook of Apple that I expect their iPhones that will be sold in the United States of America will be manufactured and built in the United States, not India, or anyplace else,"Trump said in a post on Truth Social.


"If that is not the case, a Tariff of at least 25% must be paid makers and luxury companies, by Apple to the US."

The White House has been in negotiations with numerous countries over trade issues, but progress has been unsteady. Finance leaders from the Group of Seven industrifor smaller IPOs IN FY25, 78 mainboard issues raised an all-time high amount of ₹1.62 lakh crore. According to Yatin Singh,

CEO of Investment Banking at Emkay Global Financial Services, the latest filings are in line with the market environment but the companies which filed for IPOs in the bull market will reduce the issue size to offer more reasonable valuations to the investors. "While the market has stabilised, we are nowhere close to the euphoria that we saw last year," he said, noting that FIIs have to return in the small and midcap segment for the institutional demand to improve.

At the same time, he added earnings recovery is not fully captured in the current slowdown and as things improve at the macro level, and a good

monsoon will aid growth. Experts also highlight the tepid listing of Aether Energy also impacted the sentiment. The shares of the electric twowheeler maker fell more than 5% on listing day.



Pranav Haldea, MD of Prime Database said companies are testing the waters again and valuations & sizes are usually lowered once IPO activity resumes after a break.

Mirae Asset Capital markets director Manish Jain said that the overall sentiment is not in favour of the primary market activity due to the volatility and a sustained bullish market is needed for the action to resume. Data from Prime Database show that 66 companies have valid Sebi approval as of May 16 while 70 other applications are awating the regulator's nod.

Regd. Office: 8, Electronics Complex, Chambaghat, Solan-173213 (Himachal Pradesh) Tel.: (+911792) 230644; Fax No.: (+911792) 231902; E-mail: secretarial@hfcl.com Website: www.hfcl.com; Corporate Identity Number (CIN): L64200HP1987PLC007466

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

The Audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the fourth quarter and financial year ended 31st March, 2025 ('Financial Results') have been reviewed and recommended by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on May 22, 2025.

The Financial Results along with the Limited Review Reports, have been posted on the Company's website at https://www.hfcl.com/ and can be accessed by scanning the QR code.

By order of the Board

Sd/-

(Mahendra Nahata) Managing Director

DIN: 00052898

Place: New Delhi Date: May 22, 2025



CIN: L70200DL2016PLC438718

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Registered Office: Max House 1, Dr. Jha Marg, Okhla Phase 3, Opposite Okhla Railway Station Okhla Industrial Estate, South Delhi, New Delhi, India, 110020 Website: www.maxestates.in STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL

Corporate Office: Max Towers, L-20, C-001/A/1, Sector-16B, Noida-201301, Uttar Pradesh, India

RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2025

The Board of Directors of the Company, at the meeting held on May 22, 2025, approved the audited financial results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2025.

The results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com, and on the company's website (URL: https://maxestates.in/wp-content/uploads/2025/05/20250522 OutcomeofBoardMeeting.pdf). The same can be accessed by scanning the Quick Response Code provided below.

(Lisiting Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015



By Order of the Board For Max Estates Limited

Date: May 22, 2025

Sahil Vachani Vice-Chairman & Managing Director Note - Note - The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI

MAX ESTATES LIMITED

Pradeep Metals Limited

Registered. Office: R-205, T.T.C. Ind. Area, MIDC, Rabale, Navi Mumbai 400701 Email id: investors@pradeepmetals.com, Website: www.pradeepmetals.com, Contact no: +91-022-2769 1026, Fax: +91-022-2769-1123


Extract of Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and year ended 31st March 2025

(Rs. in Lakhs)

	PARTICULARS	Standalone				Consolidated					
		Quarter ended		Year ended		Quarter ended			Year ended		
Sr No.		31-Mar-2025	31-Dec-2024	31-Mar-2024	31-Mar-2025	31-Mar-2024	31-Mar-2025	31-Dec-2024	31-Mar-2024	31-Mar-2025	31-Mar-2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	8,405.17	7,327.50	7,389.38	29,439.08	25,121.36	8,703.19	7,915.01	7,948.61	31,186.13	27,666.86
2	Net Profit for the period / year before tax	974.70	566.72	786.93	3,066.82	2,441.58	992.57	756.67	991.94	3,486.37	2,825.52
3	Net Profit for the period / year after tax	726.39	467.55	569.04	2,314.57	1,813.01	709.33	661.79	783.39	2,717.37	2,228.42
4	Total Comprehensive Income for the period / year [Comprising Profit / (Loss) for the period / year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	700.50	492.06	556.98	2,272.08	1,760.24	675.00	702.93	772.05	2,676.19	2,119.65
5 6	Paid-up equity share capital Other Equity (Reserve excluding Revaluation Reserve)	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00	1,727.00
7	as shown in the Audited Balance Sheet Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) (not annualized)				12,415.68	10,488.97				11,994.31	9,663.51
	(a) Basic	4.21	2.71	3.29	13.40	10.50	4.11	3.83	4.54	15.73	12.90
	(b) Diluted	4.21	2.71	3.29	13.40	10.50	4.11	3.83	4.54	15.73	12.90

1. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Standalone & Consolidated Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com/corporates) and the Company website (http://www.pradeepmetals.com/reports.html). The same can be accessed by Scanning the QR Code given.

2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its Meeting held on 22nd May 2025, the Statutory Auditors of the Company have carried out the audit of the Standalone & Cconsolidated financial results for the year ended 31st March 2025.



DIN:00008370



Chandigarh

THE GOM WOULD be suggesting how to retain the revenue from cess in some form and how it is to be shared between the Centre and the states.

As per the calculations, the interest and principal of the ₹2.69 lakh crore loan would be repaid by January 2026. The

Centre and states.

collection from the compensation cess in February and March, 2026 is estimated to be ₹40,000 crore. The GST law provides that any additional amount collected in the compensation cess pool would be divided equally between the



Place: Mumbai

epaper.financialexpress.com

सीएम के बंजार दौरे की तैयारियां शुरू

बंजार। बंजार खंड विकास कार्यालय में विभिन्न विभागों की कारोत्तव म (वाभन्न) विभाग का बैदक हुई। बैदक का आयोजन एसडीएम बैजार सहित एपीएमसी अध्यक्ष राम सिंह मिया की अध्यक्षता में किया गया। इस बैदक में मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह टाकुर के बजार दौर को लेकर तैयारियों की चर्चा हुई। मुख्यमंत्री का बनार का फाठिदसीय दौरा का बजार का एकदिवसीय दौरा अब 28 मई हो होना सुनिश्चित

डिप्टी सीएम ऊना के तीन दिवसीय प्रवास पर

ऊना। उपमख्यमंत्री मकेश अगिनहोत्री २६, २७ और २८ मई को ऊना जिला के तीन दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान उपमख्यमंत्री ऊना जिला में विभिन्न विकास कारों के शिलान्सास लोकार्पण और ऊना में चल रहे विकास कार्यों का फील्ड निरीक्षण करेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उपमुख्यमंत्री २६ मई सोमवार को साथ चार बजे घरवासड़ा में शहीद नायक दिलवर खान के सम्मान में आयोजित शहीद सम्मान समारोह में शामिल होंगे।

घुमारवीं को दो करोड की तीन मंजिला पार्किंग

घुमारवीं। नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं आँद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने शुक्रवार को नगर परिषद घुमारवी के अंतर्गत दो करोड . रुपए की लागत से निर्मित तीन मौजला पार्किंग भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भवन को स्थानीय जनता को समर्पित करते हुए कहा कि यह पार्किंग सुविधा घुमारवी के व्यस्त बाजार क्षेत्र में जाम की समस्या को काफी इद तक कम करेगी।

शिक्षा मंत्री ने दी 2.50 करोड की सौगात

रोहडू। जुब्बल के अंतर्गत बरथाटा पंचायत में एकदिवसीय प्रवास के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ढाकुर ने बलाई संपर्क सडक का लोकार्पण किया। दसके साथ ही सोजला-केलवी–गड़ावग मार्ग पर 2 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पल की आधारशिला भी वाल पुल को आधारशला भा रखी। इससे पूर्व रोहित ठाकुर ने कोहलाड़ा अटी मार्ग के रतरोन्नत और चोड़ीकरण के कार्य और बटाइगलू में एक करोड़ 70 लाख की लागत से निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य का निरीक्षण भी किया।

कमलजीत एचआरटीसी डाइवर यनियन के अध्यक्ष

रामपुर बुशहर | हिमाचल परिवहन निगम रामपुर डिपो ड्राइवर यूनियन के चुनाव शुक्रवार को प्रांतीय प्रधान मानसिंह ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुए। इस दौरान सर्वसम्मित से कमलजीत वर्मा को अध्यक्ष चना गया।

भूटान के अधिकारियों ने किया रिवालसर का दौरा

रिवालसर।भारत निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन एवं विकास संस्थान द्वारा अयोजित स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एड कॉन्पिलक्ट मैनेजमेंट बूट कैप प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भटान निर्वाचन आयोग के एक रून स्वरीय प्रतिनिधियद्य ने एवं धार्मिक स्थल रिवालसर का अध्ययन दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भूटान के निर्वाचन आयुक्त दावा तेजिन

चीफ रिपोर्टर—शिमला

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा कैंडर (एचएएस) से आठ अधिकारी आईएएस में प्रोमोट कर दिए गए हैं। ये अधिकारी काफी समय से इंतजार कर रहे थे। पिछले महीने इनकी डीपीसी हुई थी, जिसके बाद शुक्रवार को इनकी प्रोमोशन के ऑडर कर दिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा कैडर से प्रोमोट पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के पद पर हैं। वहीं, प्रभा राजीव हैं। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी संजय कुमार चौरसिया की ओर से यह आदेश जारी हुए हैं। इस संबंध में हिमाचल के कार्मिक विभाग को वहां से सूचना भेज दी गई है। बता कंटोलर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सतीश कुमार शर्मा निदेशक राजस्व प्रशिक्षण केंद्र जोगिंद्रनगर, आशीष कुमार कोहली निदेशक स्कूल दें कि वर्ष 2023 की सिलेक्ट लिस्ट में आठ पद खाली पड़े हुए थे। 1.1.2023 से 31.12.2023 के मध्य में इन अधिकारियों को प्रोमोट कोहली निदेशक स्कूल शिक्षा, जितेंद्र सांजटा सचिव विद्युत नियामक आयोग, किया गया है। यहां आईएएस वीरेंद्र शर्मा श्रमायक्त एवं कैंद्रा में रिक्ति थी, जोकि अब भर जाएगी। डा. मधु चौधरी वर्तमान में चौधरी सरवण कुमार विवि में प्रबंध निदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलपमेंट कारपोरेशन तथा हेमिस नेगी एमडी मार्केटिंग रजिस्ट्रार हैं। मनोज कुमार एमडी

इनका बदला कैडर

आठ हिमाचली अफसर बने आईएएस



राजीव, सतीश कुमार शर्मा, आशीष कुमार कोहली, जितेंद्र साजटा, वीरेंद्र शर्मा व हेमिस नेगी के नाम हैं।

चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में राजेश शर्मा को जिम्मेदारी

दिव्य हिमाचल ब्यूरो—शिमला

नवंबर 2025 में दिक्षी में होने जा रही पांचवीं मुख्य सचिव कॉन्फ्रेंस के लिए समग्र शिक्षा के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिली हैं। इस कॉन्फ्रेंस में

इस का उठार । विकसित भारत 2047 कि लक्ष्य अपने सब्बेक्ट पर तैयारी करनी के तहत मानव संसाधन के महत्त्व है। इसी वर्किंग ग्रुप में स्कृतिंग को पर एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। इस वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता माना गया है। राजेश शर्मा मूलत:

भारत सरकार के सेक्रेटरी संजय कुमार कर रहे हैं। देश के कुछ राज्यों को इस वर्किंग ग्रुप में शामिल किया गया है, जिनमें हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व समग्र शिक्षा स्टेट

क स्टट प्राजिक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा करेंगे। नवंबर में होने जा रही इस कान्फ्रेंस् से पहले हर वर्किंग ग्रुप को अपने-अपने सब्जेक्ट पर तैयारी करनी

बने वर्किंग ग्रुप में शामिल मानव संसाधन के महत्त्व पर करेंगे हिमाचल का प्रतिनिधित

भारतीय वन सेवा के अधिकारी है भारताय वन सवा के आधकारा है, लेकिन समग्र शिक्षा में उनके आने के बाद कई बदलाव हुए हैं। यह पहली बार है कि समग्र शिक्षा अपना 100 फीसदी खर्च करने र सफल हुआ और शिक्षको तथा छात्रों को विदेश भेजने जैसे नए प्रयोग हुए। इसी के चलते भारत सरकार ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी

900 मेगावाट की अरुण-तीन के लिए विद्युत बिक्री करार पर हस्ताक्षर

चीफ रिपोर्टर—शिमला

एसजेबीएन ने नई दिक्की में अपनी 900 मेगावाट क्षमता वाली अरुण-तीन जलिबद्धत परियोजना से विश्वत की आपूर्त के लिए द्वामीवर प्रार्टी निगम (डीवीसी) के साथ विश्वत बिक्री करार पीएसए इस्ताक्षरित किया। इस पीएसए अंतर्गत प्रतिबद्ध विजली को माञ्रा 200 मेगावाट हैं। अर्थेड गमा 200 मेगावाट है। भूपेंद्र गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अव्यंत एवं प्रबंध । नदशक, अतिरिक्त प्रभार, सुशील शर्मा निदेशक परियोजनाएं, अजय कुमार शर्मा निदेशक कार्मिक एसजेवीएन और संजीव श्रीवास्तव ईंडी डीवीसी की गरिमामयी ३७ अजस्म का गार्सनया उपस्थिति में पीएसए पर हस्ताक्षर किए। आरके गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक पावर ट्रेडिंग,



एसजेवीएन और समित मंडल, वरिष्ठ महाप्रबंधक वाणिज्यिक, डीवीसी ने करार पर हस्ताक्षर डावासा न करार पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एसजेवीएन और डीवीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। 900 मेगावाट की अरुण-तीन जलविद्यत परियोजना नेपाल के संखुवा सभा जिला में एसजेवीएन द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी एसजेवीएन अरुण-तीन पावर

...... चन्या आइवट लिमिटेड एसएपीडीसी के माध्यम से विकसित की जा रही है। कमीशन होने पर यह परियोजना 900 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादित करेगी और देश की बढ़ती विद्युत की मांग को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परियोजना के वित्तीय वर्ष 2027– 28 तक कमीशन होने की

एसजेवीएन के नाम एक और बड़ी उपलब्धि मेजर सुधीर वालिया का बलिदान भुला नहीं सकते

कारगिल युद्ध में दिखाया शौर्य, कृपवाड़ा में आतंकियों को मार ओढ़ा शहादत का चोला

जयदीप रिहान — पालमपुर

देश और विदेश में अपनी बहादरी दर्श आर ।वदश म अपना बहादुरी का जलवा दिखाने वाले मेजर सुधीर वालिया को उनके दोस्त उनकी बहादुरी के लिए 'रैंबो' नाम से पुकारते थे। पालमपुर के बनूरी गांव से संबंध रखने वाले मेजर सुधीर वालिया ने कारगिल की लड़ाई में भी अपने शौर्य का परिचय दिया था। अपन शाय की पारंचय दिया था। वह कारिगल के युद्ध के बाद 29 अगरत, 1999 को कुपवाड़ा के जंगलों में आंतकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। मेजर सुधीर वालिया का जन्म 24 मई, 1969 को बुआ था। उन्होंने 1988 में भारतीय विशेष बन्त है, मेजर वालिया ने सन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि जम्मू-कश्मीर में कई आपरेशन प्राप्त की और चार जाट रेजिमेंट का किए। दो बार सियाचिन क्षेत्र में

हिस्सा बने। कमीशन के तुरंत बाद वह उन सैनिकों का हिस्सा बन माए, जिन्हें भारत-श्रीलंका समझौते के तहत शांति मिशन पर श्रीलंका भेजा गया था।

श्रीलंका में उन्हें शांति दूत के रूप में पुकारा जाता था। पेंटागन में 70 देशों के प्रतिनिधि गए थे, उसमें भारत की ओर से उन्होंने टॉप किया था। श्रीलंका से लौटने के बाद, उन्हों नौ पैराशूट कमांडो रेजिमेंट में ले जाया गया, जो भारतीय सेना का एक विशेष बल है, मेजर वालिया ने

तैनात हुए और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक के एडीसी के रूप में भी कार्यरत थे। उन्होंने नौ वर्ष की सैन्य सेवा में 15 मेडल प्राप्त किए। उन्होंने भारतीय सेना में हो बार

विशेष लगातार सेना मेडल प्राप्त किया था। मेजर सुधीर वालिया को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इंडियन स सम्मानत किया गया। इंडियन आर्मी के रैंबो और शांतिकाल के सर्वोच्च रोग भेडल अशोक चक्र से सम्मानित मेजर सुधीर वांतिया के बहादुरी के किस्सी को मुंबई की फ्रींतांस लेखिका जयशी लक्ष्मीकांत ने पुस्तक में पिरोया है। 'कूमार'-'दी वारियर वी नो, दि ह्यूमन वो डोंट' पाए 15 मेडल, 'रैंबो' नाम से

आज देगे श्रद्धांजलि

शहीद मेजर सुधीर वालिया की स्मृति में पालमपुर में प्रतिमा स्थापित की गई है। उनकी जयति पर शनिवार को सुबह सात बजे प्रतिमा स्थल पर पौधारोपण किया जाएगा । साढे दस बजे श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाएगा । बनूरी स्थित रावमापा में आयोजित किया जाएगा।

रिज पर लगाई जाए प्रतिमा

दिव्य हिमाचल ब्यूरो—शिमला

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के एक शिष्टमंडल ने शुक्रवार को राजभवन में प्रदेशाध्यक्ष हीरामणि भारद्वाज के नेतृत्व में होरामाण भारहाज कं नतृत्व म फज्यपाल शिवा प्रताश शुक्त से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को मांग पत्र देकर भारत रव डा. भीमराव अर्थेडकर की प्रतिमा को ऐतिहासिक रिज पर स्थापित करने, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पांचवी कश्चा से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समाज स्थापकों की जीवनी पढ़ाने करा सधारकों की जीवनी पढाने का ु आग्रह किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश.

 संयुक्त संघर्ष मोर्चा की मांग राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

राज्यों द्वारा बनाए गए राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निधि योजना, आबंटन एवं वित्तीय संसाधनों का अबदन एवं विचाय संसोधना को उपयोग अधिनियम के अनुरूप हिमाचल में भी अधिनियम बनाने की मांग की और प्रारूप प्रस्तुत किया। शिष्टमंडल में मोर्चा के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेन राम नेगी, राज्य समन्वयक राजेश कश्यप, राज्य समन्वयक राजश कश्यप, राज्य सचिव सावित्री कश्यप, शिमला जिला अध्यक्षा बिदी कल्याण एवं शिमला जिला

डाक्टर भीमराव अंबेडकर की एचआरटीसी ने रिटायर कर्मियों को दिया विकल्प

कम्यटेशन छोडने पर मिलेंगे शेष वित्तीय लाभ, सीएम से मिलेंगे कर्मचारी

चीफ रिपोर्टर—शिमला

पिछले साल सेवानिवृत हुए एचआरटीसी के पेंशनरों को अभी तक वित्तीय लाभ नहीं मिल पाए हैं। ये सेवानिवृत कर्मचारी अभी ही ये सवानिवृत्तं कमचारा अभा तक इनके मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि इन रिटायर कर्मियों को कम्यूटेशन छोड़ने को कहा जा रहा है। यदि

कोई निर्णय नहीं लिया है। मगर एचआरटीसी में इस तरह का विकल्प इन सेवानिवृत कर्मचारियों के सामने रख दिया गया है। ऐसा

करने से उनके शेष वित्तीय लाभ, करने से उनके शेष वित्तीय लाभ, जिसमें लीव इन्केशमेंट, ग्रेच्युटी व अन्य संशोधित वेतनमान के लाभ इनको मिल सकते हैं। अब यह इन सेवानिवृत कर्मचारियों पर निर्भर करता है, क्योंक एचआस्ट्रीसी की अना फरता है, प्रधाक एवजारदास का कर आर्थिक हालत ठीक नहीं है और वो मुश्किल से अपने कर्मचारियों को वेतन की अदायगी कर रहा है। पेंशनरों

को समय पर पेंशन तक नई

संघ के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर का कहना है कि सरकार कम्यूटेशन छोड़ने का विकल्प दे रही है तो इस पर खुद कर्मचारियों को ही फैसला

हाई कोर्ट ने सरकार को दिए आदेश

हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि एचआरटीसी और बिजली बोर्ड के सेवानिवृत कर्मियों के वितीय लाभ जारी करें, क्योंकि उनकी तरफ से रोजाना याचिकाए अदालत में लगाई जा रही हैं। इस पर मख्य सचिव को दो सप्ताह में पर मुख्य सावय का दा सताह म शपथ पत्र भी देने को कहा गया है।अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार कितनी जल्द क्या कदम उठाती है।इन सेवानिवत कर्मचारियों को कोई लाभ मिल पाता है या फिर नहीं।

लेना है, इसमें उनकी यूनियन कुछ नहीं कर सकती है।

108-102 एंबुलेंस कर्मचारी हड़ताल की तैयारी में

हिमाचल प्रदेश 108 एवं 102 एंबलेंस कर्मचारी यूनियन की लंबित मांगों को लंकर 27 मई रात को आठ बजे से 28 मई रात को आठ बजे तक एक दिन की हड़ताल का निर्णय लिया है। इस

दौरान कोई भी ड्राइवर व ईएमटी कार्य नहीं करेगा। इस दौरान 28 मई को सभी जिला मुख्यालयों, नेशनल हेल्थ मिशन प्रबंध निदेशक कार्यालय शिमला एवं मेडस्वान फाउंडेशन मुख्य कार्यालय धर्मपुर सीट प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने

कहा कि मुख्य नियोक्ता एनएचएम तहत कार्यरत मेडस्वेन फाउंडेशन के अधीन काम कर रहे सैकडों पायलट. कैप्टन व ईएमटी कर्मचारी शोषण के शिकार हैं। शोषण का आलम यह है कि इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है। इन कर्मचारियों से बारह घंटे ड्यूटी करवाई जाती है परंतु इन्हें ओवरटाइम वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। उन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों को सरकारी नियमानुसार न्यूनतम वेतन का भगतान किया जाए। बारह घंटे कार्य करने पर नियमानुसार डबल ओवरटाइम वेतन का भुगतान

कुनिहार नागरिक चिकित्सालय में वाकया, नशे की लत से जोड़ा जा रहा मामला

रिटायरमेंट पर पहुंचे शिक्षकों को ट्रांसफर ऑर्डर टीजीटी कला संघ ने तबादलों को रोकने का किया आग्रह

स्टाफ रिपोर्टर—शिमला



उसक दा बार तबादला आदश एक माह में ही आ चुके हैं। बिझड़ी और सुजानपुर खंड में भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें सेबानिवृत्ति के कागार पर कार्यरत शिक्षकों के तबादले दुरदराज के इलाकों में किए गए हैं। ट्रांसफर पॉलिसी में साफ लिखा है कि सेबानिवृत्ति के कगार पर बैठे शिक्षकों की ट्रांसफर कला संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा घर के नजदीकी स्टेशन में करने की मंत्री से की है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष

हिमाचल प्रदेश के निर्माता माने जाने वाले डाक्टर वाईएस परमार मुख्यमंत्री रहे हैं। हमीरपुर से

वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर

सिंह सुक्खू हैं और इससे पहले प्रेम कुमार धूमल दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी विधानसभा में

हार के चलते अवसर मंडी को मिला और प्रदेश की राजनीति में

कोशिश की जाए और सेवा के क्षाशिश को जीए आर सवा के आखिरी दो साल उनको यह लाभ दिया जाए। शिक्षा निदेशालय भी आदेश करते हुए शर्त लिख देता है कि यह देख लिया जाए कि शिक्षक की नौकरी दो साल से अधिक शेष् रॉहत देने की गुहार

की नोकरा दा सील स आधक शब है। मगर इसके बावजूद इन आदेशों को लागू करने के लिए स्कूली मुखियाओं को दबाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ट्रांसफर आदेशु करने से पहले निदेशालय में यह चैक कर लेना चाहिए कि अमुक शिक्षक की सेवानिवृत्ति कब है और ऐसे आदेश जारी ही नहीं करने चाहिए, ताकि शिक्षकों को बड़ी असुविधा का सामना न करना पड़े। यह मांग राजकीय टीजीटी

सुरेश कौशल ने कहा कि हद से ज्यादा तबादले नहीं किए जाएं और तबादलों की प्रक्रिया को अति जटिल और अति दबावपूर्ण न बनाया जाए। तबादला आदेशों को लागू करते हुए रिलीविंग ज्वाइनिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप रोका जाए। ज्वाइन करने आए शिक्षकों को ज्वाइन नहीं किया जाना और चार ज्वाइन नहां किया जाना आर चार दिन बार आदेश रद्द करवाना भी जिला हमीरपुर का ही मामला है। इसके अलावा विझड़ी खंड में टीजीटी तबादलों का नया रिकॉर्ड

केंद्रीय मंत्री गिरिराज आज आएगे कागडा

, कांगड़ा। केंद्रीय वस्त्र मंत्री वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 24 मई शनिवर को

मई शानवर का एनआईएफटी कांगड़ा आएंगे। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की महानिदेशक तनु कश्यप ने बताया कि गिरिराज सिंह यहां शिवालिक कन्या छात्रावास सतलुज संकाय निवास और संकाय केबिन का उद्घाटन करेंगे। 120 बिस्तरों की क्षमता वाले शिवालिक कन्या छात्रावास के बनने से यहां छात्राओं

कैमिस्ट की दुकानों पर सिरिंज न मिल पाने के कारण एक युवा हॉस्पिटल से ही कई सिरिंज चुराकर भाग को सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर आयोजित समारोह में कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डा. राजीव भारद्वाज, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और विधायक पवन काजल मौजूद रहेंगे।

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — कुनिहार

नशे की कथित लत ने युवा वर्ग को सरकारी अस्पतालों से इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज (सुई) चुराने के लिए बाध्य कर दिया है।

स हा कई सिरंज चुराकर भाग गया। मामला कुनिहार के नागरिक चिकित्सालय का है। यहां के अस्पताल में एक युवा अपने किसी दूसरे साथी के साथ मेडिकल चैकअप को आया। सूत्रों के अनुसार वह इधर=उधर घूमता रहा तथा मौका मिलते ही वहां पर तैनात

अस्पताल से सिरिंज लेकर भागा युवक पतली सूई वाली सिरिंज उठाकर भाग गया। इससे पहले स्टाफ का कोई सदस्य संभल पाता.

0

वह रफुचक्कर हो गया। पहले तो इस मामले पर कोई प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, लेकिन कुछ घंटों में ही जब यह एपीसोड पूरे क्षेत्र में वायरल हो गया, तो मामला फिर पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने

मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में यह भी पता चला है कि जब युवक सिरिंज चुराने अस्पताल के अंदर गया था, तो बाहर उसका एक साथी बाइक स्टार्ट करके उसकी प्रतीक्षा में था। जैसे ही मौका पाकर युवक ने मेडिकल स्टाफ के सामने कई सिरिंज चुराई, तो बाहर बाइक पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

■ बाइक स्टार्ट कर इतजार कर रहा था एक और साथी

दोनों युवक फरार हो गए। क्षेत्र में फैली चर्चा के मुताबिक इस घटना को युवा पीढ़ी में बढ़ रही नशे की लत से जोड़ा जा रहा है। द्वाइयों की दुकानों पर सख्ती होने के कारण नशेड़ियों को इंजेक्शन लगाने के लिए सूई नहीं मिल रही है। अपनी इस लत को पूरा करने के लिए संभवतः युवकों ने सरकारी अस्पताल को निशाना बनाया। कुनिहार क्षेत्र में युवाओं में बढ़ती नशे की लत ने अभिभावकों को परेशान कर रखा है।। डीएसपी अशोक चौहान ने बताया कि इस आशय की शिकायत आई है तथा

सियासत में कांगड़ा के नेताओं की पकड़ कमजोर

15 विधायकों वाले जिला को साढे तीन दशकों से न मिला सीएम, न पार्टी अध्यक्ष

पवन शर्मा—धर्मशाला

राजनीतिक तौर पर कांगड़ा हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है। हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है। इस बड़े जिला से 15 विधायक हिमाचल विधानसभा के लिए निर्वाचित होते हैं, लेकिन राजनीतिक पकड़ में जिला कांगड़ा करीब साढ़े तीन दशकों से कमजोर दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय असनुल और कांगड़ा की राजनीतिक तौर पर अनदेखी के स्वर समय-समय पर अनद्क्षा क स्वर समय-समय पर सुनने को मिलते हैं, लेकिन हिमाचल की राजनीति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करें तो ।वस्तवाभाषातम् अन्ययं न भारता । हार भा न्यायः जानकर न जानकर । भारता कुमार को छोड्कर न तो यहाँ मिला और ग्रदेश की राजनीति में से कोई मुख्यमंत्री बन सका है और । 10 विशायकों वाले दूसरे नंबर के न ही पार्टी अध्यक्ष। अब 35 वर्ष से जिले से जबराम टाकुर मुख्यमंत्री

अधिक का समय हो गया है, लेकिन कांगड़ा जिला मुख्यमंत्री पद अध्यक्ष के लिए दोनों पार्टियां कर रहीं कसरत और भाजपा के अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर है। शिमला जिला जो तीसरे नंबर का जिला है, उसने दो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और ठाकुर रामलाल दिए और सिरमौर से

इस बात का जिक्र करना इसलिए भी आवश्यक है कि अभी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना है। ऐसे में कांगड़ा जिला को प्रतिनिधित्व का मौका मितता है तो यह कांगड़ा के लिए बड़े सम्मान की बात होगी। अभी दोनों ही राजनीतिक दल प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को गुणा भाग कर रहे हैं, जिसमें कई नेताओं के नाम भी चर्चा में आ रहे हैं।

बने। बारीकी से अवलोकन किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पूर्व सीएम शांता कुमार को यह पद उनके व्यक्तित्व के कारण हसिल हुए थे न कि बड़े जिला का उपक्र ज्याध्येत्र के कारण शासिता हुए थे ने कि बढ़े जिला का प्रतिनिधित्व करने के कारण। वह आज से 35 वर्ष पूर्व भाजपा के अध्यक्ष थे, जो कागड़ा जिला से संबंध रखते थे। जिला मंडी, ऊना,

प्रदेश अध्यक्ष रह चके हैं। सोलन त्रप्त अञ्चल रह पुन्न है। सारान, शिमला, बिलासपुर और कुछू से भी एक- एक नेता प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। ऐसी ही हालत कांग्रेस को है। कांग्रेस के नेता भी कांगड़ा का सरकार में मुखिया या पार्टी अध्यक्ष के तौर पर प्रतिनिधत्व नहीं कर पाए हैं। —एचडीएम



एचएफसीएल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ८, इतेक्ट्रॉनिक्स कॉप्लेक्स, चंबाघाट, सोलन-173213 (हिमाचल प्रदेश) दूरमाष : (+911792) 230644 फैक्स सं. (+911792) 231902, ई-मेल : secretarial@hfcl.com : www.hfcl.com कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L64200HP1987PLC007466

31 मार्च, 2025 को समाप्त चौथी तिमाही एवं वित्त वर्ष के लिए ऑडिटेड एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण


31 मार्च 2025 को समाप्त चौथी तिमाही व वित्त वर्ष के लिए कंपनी के ऑड्टिटेड एकल एवं समेकित वित्तीय परिणाम (**'वित्तीय परिणाम'**) की ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा और अनशंसा की गई तथा कंपनी के निदेशक-मंडल द्वारा 22 मई. 2025 को हुई उनकी संबंधित बैठकों पर अनमोदन

किया गया। सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाईट https://www.hfcl.com/ पर पोस्ट किए गए हैं तथा जो क्यूआर कोड स्कैन करके

बोर्ड के आदेश द्वारा

(महेंद नहाटा) प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 00052898 स्थानः नई दिल्ली तिथि: 22 मई, 2025



सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार, कहा

कोटा शहर में ही विद्यार्थी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 23 मई।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कोटा शहर में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में वृद्धि पर राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया और स्थिति को 'गंभीर' बताया। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि इस साल अब तक शहर से आत्महत्या के 14 मामले सामने आए हैं।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से पूछा, 'आप एक राज्य के रूप में क्या कर रहे हैं? ये बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और केवल कोटा में ही क्यों ? क्या आपने एक राज्य के रूप में इस पर विचार नहीं किया? वकील ने कहा कि आत्महत्या के मामलों की जांच के लिए राज्य में एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया था। शीर्ष अदालत आइआइटी, खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 वर्षीय छात्र की मौत के मामले की सुनवाई कर रही थी। छात्र 4 मई को अपने छात्रावास के कमरे



न्यायमूर्ति पारदीवाला ने राजस्थान राज्य का प्रतिनिर्धित्व कर रहे वकील से पूछा, 'आप एक राज्य के रूप में क्या कर रहे हैं? ये छात्र

आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या आपने एक राज्य के रूप में इस पर विचार नहीं किया? वकील ने कहा कि आत्महत्या के मामलों की जांच के लिए राज्य में एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गटन किया गया था।

में फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया था। न्यायालय एक अन्य मामले से भी निपट रहा है, जिसमें नीट परीक्षा की अभ्यर्थी एक लड़की कोटा में अपने कमरे में मृत मिली थी, जहां वह अपने माता-पिता के साथ रहती थी। पीठ को पता चला कि आइआइटी खड़गपुर के छात्र की मौत के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने 8 मई को दर्ज की गई एफआइआर में चार दिन की देरी पर सवाल

ये बहुत गंभीर बातें हैं। पीठ ने शीर्ष अदालत के 24 मार्च के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के बार-बार सामने आने वाले मामलों पर ध्यान दिया गया था और छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया गया था। पीठ ने शुक्रवार को कहा कि फैसले के अनुरूप ऐसे मामलों में प्राथमिकी का त्रंत दायर किया जाना आवश्यक है।

उठाया। पीठ ने कहा, इन बातों को हल्के में न लें।

जयपुर, 23 मई (भाषा)।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंता से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी है। देवनानी ने महाधिवक्ता की रपट मिलने के बाद शुक्रवार को यह फैसला किया।

2020 को मीणा को 20 साल पुराने मामले में

सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को धमकाने और संपत्ति को नुकसान पहंचाने का दोषी पाते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी इस सजा को बरकरार रखा था। विधानसभा के प्रवक्ता ने बताया कि देवनानी ने दोषसिद्धि की तिथि से अंता से विधायक कंवरलाल को राजस्थान प्राप्त होते ही कंवरलाल की सदस्यता निरस्त कर दी अकलेरा की स्थानीय अदालत ने 14 दिसंबर विधानसभा की सदस्यता से निरर्हित कर दिया है। गई है। देवनानी ने कहा कि वह किसी भी प्रकार

राजस्थानः भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त

कंवरलाल दोषसिद्धि की तिथि से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के अन्तर्गत निरर्हित हो गए हैं। प्रवक्ता के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि आज शुक्रवार को सुबह महाधिवक्ता की विधिक राय प्रवक्ता के अनुसार देवनानी ने बताया कि के दबाव में काम नहीं करते।

VOITH

वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 113/114ए, सैक्टर-24, फरीदाबाद-121005, हरियाणा सीआईएनः L74899HR1968PLC004895; फोनः +91 129 4292200; फैक्सः +91 129 2232072 ई-मेलः voithfabrics.faridabad@voith.com; वेबसाईटः www.voithpaperfabricsindia.com

31 मार्च, 2025 को समाप्त चतुर्थ तिमाही एवं वर्ष हेतु एकल वित्तीय परिणामों का विवरण (र मिलियन में यदि अन्यथा दर्शित न हो)

विवरण	31 / 03 / 2025 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31/03/2024 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31/03/2025 को समाप्त वर्तमान वर्ष (अंकेक्षित)	31 / 03 / 2024 को समाप्त पूर्व वर्ष (अंकेक्षित)
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	563.96	487.60	2,066.23	1,942.91
अवधि हेतु शुद्ध लाम (कर पूर्व)	152.74	102.76	537.26	487.95
अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर पश्चात)	113.41	74.13	398.93	362.94
अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल कर के] (कृपया टिप्पणी 2 देखें)	112.13	71.40	397.92	361.71
समता अंश पूँजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति अंश)	43.93	43.93	43.93	43.93
सुरक्षित (पुर्नमूल्यांकन सुरक्षित के अतिरिक्त, जैसा कि बैलेन्स शीट में प्रदर्शित है)			3,802.80	3,440.02
प्रति अंश आय (₹10/– प्रत्येक) (जारी एवं बंद प्रचालनों हेतु)				

25.83

25.83

16.89

16.89

टिप्पणी:

– मूल

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 22 मई 2025

- तरल

 उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई लिमिटेड) के पास दाखिल किए गए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। ये वित्तीय परिणाम कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण के विषय स्वरूप थें, 22 मई 2025 को आयोजित उनकी सम्बंधित बैठकों में अंकेक्षण समिति द्वारा पुनर्निरिक्षित किए गए तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।

उपरोक्त वित्तीय परिणामों को संपूर्ण प्रारूप, वैधानिक अंकेक्षकों की अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ बीएसई लिमिटेंड को प्रेषित किए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों को कम्पनी की वेबसाइट http://www.voithpaperfabricsindia.com पर 'Investors Corner' कड़ी पर उपलब्ध कराया जाएगा और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट http:www.bseindia.com पर 'Corporate' कड़ी के अन्दर 'Corporate Filing' अनुभाग में 'Financial Result' पर उपलब्ध करायें जाने की संभावना है।

- 2. ये वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 133 के अन्तर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के साथ पठित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, के नियम 3 के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- 3. निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु 100% की दर से लागांश (अर्थात् ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त अंश पर ₹ 10 प्रति अंश), अंशधारकों के अनुमोदन के विषयरूप, अनुशंसा की है।

90.87

90.87

82.67

82.67

आर कृष्णा कुमार प्रबन्धक निदेशक डीआईएन : 05344619

कम्पनी की वेबसाइट पर वित्तीय परिणाम देखने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

कृते वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड

दिल्ली-एनसीआर में फिर पांव पसार रहा कोरोना संक्रमण

दिल्ली में

गुरुग्राम में दो व

फरीदाबाद में एक

मरीज मिला।

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 23 मई।

दिल्ली और एनसीआर में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने जानकारी दी कि राजधानी में 22 मई तक कोरोना संक्रमण के कुल 23 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, गाजियाबाद में चार, गुरुग्राम में दो और फरीदाबाद में एक नया मामला सामने आया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल स्थित नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए पुरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। निगरानी

बढाई जा रही है और जांच भी की जा रही है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दिल्ली में पाए गए मरीज

स्थानीय निवासी हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं। सरकार मरीजों का यात्रा इतिहास और संपर्कों की जांच कर रही 23,गाजियाबाद में चार, है। वहीं, गुरुग्राम में दो मामले सामने आए हैं, जिनमें एक 31 वर्षीय युवती, जो हाल ही में मुंबई से यात्रा करके लौटी थी और एक सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। दोनों को घर पर ही पृथकवास में

> रखा गया है। फरीदाबाद से सामने आए कोरोना संक्रमित को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद में कोरोना के चार मरीजों की पृष्टि हुई है, जिनमें से तीन मरीज पृथकवास में है, जबिक एक मरीज निजी चिकित्सालय में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों के संपर्क में है।

आपरेशन सिंदूर में 'आकाशतीर' वायु रक्षा प्रणाली ने दिखाया दम : डीआरडीओ प्रमुख

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के प्रमुख समीर वी कामत ने भरोसा जताया है कि 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत की स्वदेश निर्मित 'आकाशतीर' वायु रक्षा प्रणाली की

भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित और पूरी तरह से स्वचालित 'आकाशतीर' वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को तैनात किया था, जो पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों के खिलाफ 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान नई युद्ध क्षमताओं की अदृश्य शक्ति के रूप में उभरी। डीआरडीओ प्रमुख ने कहा, निश्चित रूप से, हमारी वायु रक्षा प्रणाली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और मुझे यकीन है कि अन्य देशों की भी इसमें रुचि होगी। कामत ने नागपुर की यात्रा के दौरान भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के भविष्य के बारे में आशा व्यक्त की।



एचएफसीएल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ८, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन— 173213 (हिमाचल प्रदेश) दूरभाष : (91 1792) 230644, फैक्स नं.: (91 1792) 231902; ई—मेल : secretarial@hfcl.com वेबसाइट : www.hfcl.com; निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) : L64200HP1987PLC007466

31 मार्च 2025 को समाप्त चतुर्थ तिमाही तथा वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित पृथक तथा समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

दिनाँक 31 मार्च 2025 को समाप्त चतुर्थ तिमाही तथा वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित पृथक तथा समेकित वित्तीय परिणामों ('वित्तीय परिणामों') की समीक्षा एवं संस्तुति, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गयी है तथा कंपनी के निदेशक मंडल ने 22 मई 2025 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन किया है।

सीमित समीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाइट अर्थात् https://www.hfcl.com/ पर प्रदर्शित किया गया है तथा इन्हें निम्न क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।

बोर्ड के आदेशानुसार हस्ता./-

(महेंद्र नहाटा) प्रबंध निदेशक डीआईएन : 00052898

स्थान : नई दिल्ली

दिनाँक : 22 मई 2025



टिप्पणी : उपरोक्त जानकारी सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार दी गई है।

\$KIPPER स्किपर लिमिटेड

CIN: L40104WB1981PLC033408; पंजीकृत कार्यालय: 3ए, लाउडन स्ट्रीट, पहली मंजिल, कोलकाता-700017 **टेलीफोन नंबर**: 033 2289 5731/5732; फैक्स नंबर: (033) 2289 5733 संपर्क व्यक्तिः श्रीमती अनु सिंह (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी) ई-मेलः anu.singh@skipperlimited.com; वेबसाइटः www.skipperlimited.com आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के धारकों के ध्यान के लिए

> अंतिम अनुस्मारक-सह-जब्ती सूचना (भुगतान की अंतिम तिथि- शुक्रवार, ०६ जून, २०२५)

यह केवल सूचना उद्देश्यों के लिए एक विज्ञापन है और प्रकाशन, वितरण या विमोचन के लिए नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत के बाहर कहीं और और इसे क्रमशः 11 नवंबर, 2024 और 04 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित विज्ञापन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह कोई प्रस्ताव दस्तावेज नहीं है। यहां उपयोग किए गए सभी पूंजीकृत शब्दों और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का अर्थ वही होगा जो उन्हें 17 जनवरी, 2024 की पेशकश पत्र में सौंपा गया है, जो बीएसई लिमिटेड ('**बीएसई**') और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('**एनएसई**') के साथ दायर किया गया है, जो स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं (बीएसई और एनएसई को इसके बाद सामूहिक रूप से 'स्टॉक एक्सचेंज') और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी')

> आंशिक रूप से प्रदत्त अधिकार इक्विटी शेयरों के धारकों को अंतिम अनुस्मारक-सह-जब्ती सूचना जिस पर कॉल मनी का भुगतान किया जाना है (आईएसआईएन: आईएनई439ई01012)

भुगतान की अंतिम तिथि: शुक्रवार, 06 जून, 2025

कंपनी अधिनियम, 2013 ('**अधिनियम**') के साथ पठित इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों के अनुसार, पहला और अंतिम कॉल नोटिस उन व्यक्तियों को जारी किया गया है जो सोमवार, 04 नवंबर, 2024 को कंपनी के सदस्य थे, जो रिकॉर्ड तिथि है।

इस संबंध में, कंपनी की राइट्स इश्यू कमेटी ('**सिमिति**') ने 20 मई, 2025 को हुई अपनी बैठक में, आंशिक रूप से प्रदत्त राइट्स इक्विटी शेयर पर 145.50 रुपये की पहली और अंतिम कॉल राशि के भूगतान के लिए अंतिम अनुस्मारक-सह-जब्ती नोटिस भेजने को मंजूरी दी (जिसमें 0.75 रुपये अंकित मूल्य और 144.75 रुपये प्रतिभृति प्रीमियम शामिल हैं) ("**अंतिम अनुस्मारक-सह**-जब्ती नोटिस") ऐसे आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के धारकों को जिन पर पहले और अंतिम कॉल मनी का भूगतान ऐसे अवैतनिक पहले और अंतिम कॉल के भूगतान के लिए बकाया है। इस संबंध में, हम सूचित करना चाहते हैं कि अंतिम अनुस्मारक-सह-जब्ती नोटिस ऐसे आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के धारकों को जारी किया जा रहा है जिन पर पहला और अंतिम कॉल मनी बकाया है। तदनुसार, अंतिम-अनुस्मारक-सह-जब्ती नोटिस की प्रेषण 21 मई, 2025 को उन सभी सदस्यों को शुरू कर दी गई है जिन्होंने कॉल मनी का भुगतान नहीं किया है। अंतिम अनुस्मारक-सह-जब्ती नोटिस के अनुसार पहले और अंतिम कॉल मनी के भुगतान की अवधि शुक्रवार, 23 मई, 2025 से शुक्रवार, 06 जून, 2025 (दोनों दिन शामिल) तक है। जिन राइट्स इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी द्वारा शुक्रवार, 06 जून, 2025 को या उससे पहले पहला और अंतिम कॉल मनी प्राप्त नहीं किया जाता है, उन्हें बिना किसी और विस्तार/अनुस्मारक के जब्त कर लिया जाएगा। भुगतान निम्नानुसार किया जाना है:

भुगतान	से	से	अवधि		
अवधि	शुक्रवार, 23 मई, 2025	शुक्रवार, ०६ जून, २०२५	15 दिन (दोनों दिन शामिल)		
भुगतान का तरीका	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के संग्रह केंद्र (केंद्रों) के साथ चेक/डिमांड ड्राफ्ट जमा करें	के लिए)	मनी – एस्क्रो संग्रह – आर खाता (निवासी शेयरधारकों न मनी – एस्क्रो संग्रह – एनआर खाता (गैर – निवासी		

आर-आवासीय शेयरधारक/एनआर - गैर-आवासीय शेयरधारक।

उत्कृष्ट प्रथम और अंतिम कॉल मनी और अंतिम-अनुस्मारक-सह-जब्ती सूचना के भुगतान के लिए विस्तृत निर्देश कंपनी की वेबसाइट https://www.skipperlimited.com/investorrelations/right-issue.aspx पर उपलब्ध हैं।

कृपया ध्यान दें कि पहले और अंतिम कॉल मनी का भूगतान करने में विफलता, जैसा कि ऊपर कहा गया है, आपके द्वारा रखे गए कंपनी के आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों को, जिसमें उस पर पहले से ही भुगतान की गई राशि भी शामिल है, अधिनियम के प्रावधानों, कंपनी के एसोसिएशन के लेख और पेशकश पत्र के अनुसार जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा। कंपनी आपको देय किसी भी लाभांश से, यदि कोई हो, आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के संबंध में कॉल के खाते में बकाया सभी राशियों को काटने की हकदार होगी।

इस संबंध में सभी पत्राचार महेशवरी डाटामैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को संबोधित किए जा सकते हैं; यूनिट स्किपर लिमिटेड; 23, आर एन मुखर्जी रोड, 5वीं मंजिल, कोलकाता-700001; संपर्क व्यक्तिः श्री रवि बहल; दूरभाषः 033 2248 2248; ई-मेल आईडीः mdpldc@yahoo.com

कृते स्किपर लिमिटेड

दिनांक: 22 मई, 2025

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

पंजाब नेशनल बेंकभरोसे का प्रतीक



punjab national bank ...the name you can BANK upon!

स्थानः कोलकाता

सैम शाखा दिल्ली, चौथी मंजिल, 7 भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली ई-मेल: zs8343@pnb.co.in

ई-नीलामी बिक्री सुचना अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतू नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर ''जैसा है जहाँ है'', "'जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची

7	गॅट सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार∕जमानतियों के खाते का नाम तथा पता	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण∕स्वामी का नाम (सम्पत्ति(यों) के बंधककर्ता)	A) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि B) तक बकाया राशि C) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि	(A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि⁄समय	प्रतिभूत लेनदार के संज्ञान में ज्ञात ऋण भार	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क
	1.	सैमबी दिल्ली मैससं सुधीर एग्रो ऑयल्स प्राइवेट लिस्टिड (1.) मेसर्स सुधीर एग्रो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड डी-98 कमला नगर दिल्ली 110007	प्लॉट नं. 174, ब्लॉक ई, औद्योगिक क्षेत्र, रेवाड़ी लाइन, राजस्व संपदा बसई दादरपुर, फेज–II, नई दिल्ली में श्रीमती कमला खुराना के नाम पर स्थित, क्षेत्रफल 418.50 वर्ग मीटर। (सांकेतिक कब्जे में)	D) कब्जे की प्रकृति (सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक) A) 05.10.2024 B) रु. 66,39,20,528.83 तिथि 30.09.2024, ब्याज, बैंक प्रभार एवं वसूली हेतु बैंक द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क सहित C) 06.02.2025	(D) संपत्ति निरीक्षण तिथि और समय A) रु. 5.84 करोड़ B) रु. 0.584 करोड़ C) रु. 0.02 करोड़	15.07.2025 11:00 बजे पूर्वा. से 04:00 बजे अप. तक	ज्ञात नहीं	पवन सिंह यादव मोबाइल नं.: 8595816855
		(2.) सुश्री नीरू खुराना (गारंटर) पत्नी स्वर्गीय श्री सुधीर खुराना 7/19 रूप नगर दिल्ली (3.) श्री. प्रेम कुमार तनेजा (गारंटर) पुत्र जी.आर. तनेजा निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (4.) श्री. दुःखद है खुराना पुत्र स्वर्गीय श्री. सुधीर खुराना पुत्र श्रीमती कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (5.) सुश्री साक्षी खुराना पुत्री स्वर्गीय श्री. सुधीर खुराना पुत्री सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (6.) श्री. हर्ष इट अरोड़ा, सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर, दिल्ली 110007	संपूर्ण निर्मित संपत्ति संख्या 19, ब्लॉक-7 (7/19), रूप नगर, दिल्ली- 110007, प्लॉट क्षेत्रफल 510 वर्ग गज (सांकेतिक कब्जे में)	D) सांकेतिक कब्जा A) 05.10.2024 B) रु. 66,39,20,528.83 तिथि 30.09.2024, ब्याज, बैंक प्रभार एवं वसूली हेतु बैंक द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क सिंहत C) 06.02.2025	A) स. 14.12 करोड़ B) रु. 1.412 करोड़ C) रु. 0.05 करोड़	रु. 1.412 करोड़		
		(8.) सुश्री कविता खन्ना पुत्री सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007) सुश्री कांता खन्ना पुत्री सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) पत्नी मुकेश खन्ना मकान नंबर 5ए/8 पश्मीना हाउस, सर्कुलर रोड अमृतसर, पंजाब -143001 (10.) सुश्री कौशल्या देवी पत्नी श्री जी. आर. तनेजा (गारंटर) निवासीः 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (11.) स्वर्गीय सुश्री कमला खुराना (गारंटर) के अन्य सभी विधिक उत्तराधिकारी र्गिय) निवासीः डी-98 कमला नगर दिल्ली 110007, साथ हीः 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007, साथ हीः मकान नंबर 5ए/8 पश्मीना हाउस, सर्कुलर रोड अमृतसर, पंजाब 143001	संपत्ति प्लॉट नंए-91, स्कीम मालवीय नगर, कालगिरी रोड, जयपुर-302017 (राजस्थान) में स्थित, क्षेत्रफल 589.50 वर्ग मीटर, श्रीमती कौशल्या तनेजा पत्नी श्री जी.आर. तनेजा के नाम पर (सांकेतिक कब्जे में)	D) सांकेतिक कब्जा A) 05.10.2024 B) रु. 66,39,20,528.83 तिथि 30.09.2024, ब्याज, बैंक प्रभार एवं वसूली हेतु बैंक द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क सहित C) 01.03.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) रु. 10.90 करोड़ B) म 10.90 करोड़ C) रु. 0.05 करोड़			

नियम एवं शर्ते : बिक्री प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : . सम्पत्तियों की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कछ भी है वहीं है'' आधार पर की जा रही है।

देनांक : 22.05.2025 स्थान : दिल्ली

. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 3. प्रतिभूत परिसंपित्त को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। पहली बोली आरक्षित मूल्य से अधिक किसी भी राशि पर आरंभ होगी।

. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट नीलामी की तिथि एवं समय पर वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से की जाएगी। 5. अधिक जानकारी तथा बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://baanknet.com तथा www.pnbindia.in देखें। सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

epaper.jansatta.com

Chandigarh

नागपुर, 23 मई (भाषा)।

सफलता दूसरे देशों को आकर्षित करेगी।

अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार